

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा सितंबर २०२० माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

1. राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) - मिशन कर्मयोगी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 02.09.2020 को अनुमोदित किया गया था। एनपीसीएससीबी के तहत, सरकार में प्रत्येक पद की व्यवहारात्मक, कार्यात्मक और कार्यक्षेत्र संबंधी आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए सभी सिविल सेवा कार्यो को भूमिकाओं, गतिविधियों और दक्षताओं के एक ढांचे (एफआरसी) को जांचने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म (आईगॉट-कर्मयोगी) के स्वामित्व और प्रबंधन के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत एक कंपनी को शामिल करने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है जो मंत्रालयों और विभागों को अब तक असंभव पैमाने पर अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण संसाधन और अवसर प्रदान करने की अनुमति देगा।
2. कर्मचारी चयन आयोग ने 01.10.2020 से 31.08.2021 तक की अवधि के दौरान आयोजित होने वाली परीक्षाओं का अंतरिम कैलेंडर प्रकाशित किया है। साथ ही आयोग ने निम्नलिखित परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है:

क) कनिष्ठ अभियंता परीक्षा, 2018 का पेपर-II
ख) संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएलई), 2018 का टियर-III
3. सिविल सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर अनुशंसित उम्मीदवारों के सेवा आवंटन का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है और 95वें सामान्य आधारभूत पाठ्यक्रम से संबंधित आगे की कार्रवाई करने के लिए एलबीएसएनए, मसूरी को भी संप्रेषित किया गया है। इसकी शुरुआत दिनांक 12.10.2020 को हुई।
4. मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने विभिन्न अनुसूची 'क' और 'ख' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) में 04 मामलों (02 सीएमडी और 02 कार्यात्मक निदेशक) में नियुक्तियों का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा, विभिन्न अधिकरणों/सांविधिक निकायों/प्राधिकरणों/आयोगों में अध्यक्षों/सदस्यों की चौदह (14) नियुक्तियों, स्वायत्तशासी निकायों/संस्थानों में मुख्य कार्यकारी की दो (02) नियुक्तियों, ओएसडी की नियुक्ति के एक (01) प्रस्ताव, गैर-सीएसएस पदों पर नियुक्ति के तीन (03) प्रस्ताव, विस्तार के पांच (05) प्रस्तावों और समय से पहले प्रत्यावर्तन के तीन (03) प्रस्तावों का मंत्रिमण्डल सचिव/एसीसी द्वारा अनुमोदन किया गया।

5. लोक उद्यम चयन बोर्ड, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने निदेशकों के 05 (पांच) पदों के लिए विज्ञापन जारी किए।
2. उपर्युक्त के अलावा, इस विभाग द्वारा विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित अनुदेश/दिशा-निर्देश/स्पष्टीकरण जारी किए गए थे:-
 - (i) दिनांक 08.09.2020 के का.ज्ञा. सं. 21011/04/2019-स्था.(क-11) के तहत वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के उपयोग को दर्शाना।
 - (ii) दिनांक 01.09.2020 के का.ज्ञा. सं. 14034/1/2013-स्था.(घ) के तहत भारत सरकार के मंत्रालयों/विभाग में समूह 'ग' में किसी भी पद पर खिलाड़ियों को शामिल करना।
 - (iii) संशोधित सुनिश्चित करियर उन्नयन स्कीम (एमएसीपी) के अधीन लाभ प्रदान करने पर वेतन का निर्धारण – व्यय विभाग के दिनांक 28.09.2018 के का.ज्ञा. में प्रदान किए गए प्रवेश स्तर के वेतन के लाभ का विस्तार दिनांक 08.09.2020 के का.ज्ञा. सं. 35034/3/2015-स्था.(घ) के तहत जारी किया गया।